

हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 23 फ़रवरी 2025, समय 1305 (5 मिनट)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कृत्रिम मेधा के क्षेत्र में भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के लोग नई प्रौद्योगिकी अपनाने में किसी से पीछे नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की भागीदारी से अंतरिक्ष और कृत्रिम मेधा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नई क्रांति आ रही है। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि देश ने पिछले महीने इसरो के जरिए अपना 100वां रॉकेट छोड़ा। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की टीम में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ने पर भी संतोष व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता जताई कि अंतरिक्ष क्षेत्र हमारे युवाओं को बहुत प्रिय है। प्रधानमंत्री ने इस महीने की 28 तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए जाने की बात करते हुए श्रोताओं को सुझाव दिया---

श्री मोदी ने आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह नारी शक्ति को सलाम करने का विशेष अवसर है। उन्होंने देवी महात्म्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सभी विद्याएं देवी के ही विभिन्न स्वरूपों की अभिव्यक्ति हैं और जगत की समस्त नारी शक्ति में ही उनका प्रतिरूप है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में बेटियों का सम्मान सर्वोपरि रहा है और देश की मातृशक्ति ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार महिला दिवस पर नारी शक्ति को समर्पित एक पहल की जा रही है।

उन्होंने इसमें भागीदारी को लेकर बताया -

प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में मोटापे को काबू करने पर भी जोर दिया। उन्होंने मोटापे की चुनौती से निपटने के गुर देते हुए कहा -

श्री मोदी ने कहा कि भोजन में तेल के अत्यधिक इस्तेमाल से हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बिमारियां हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि लोग अपने खान-पान की आदतों में कुछ बदलाव कर स्वस्थ रह सकते हैं और बिमारियों से बच सकते हैं। उन्होंने मोटापे को लेकर मुक्केबाज निखत जरीन और प्रख्यात डॉक्टर देवी शेट्टी और ओलिम्पिक पदक विजेता नीरज चौपड़ा के संदेश साझा किये।

मुक्केबाज निखत जरीन ने कहा कि मोटापा एक राष्ट्रीय चिंता है और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर देवी शेट्टी ने सावधान करते हुए कहा कि मोटापे का मुख्य कारण अस्वस्थ चीजों का सेवन और तेल का अधिक इस्तेमाल करना है। आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने भारत के जीवंत वनस्पति और जीव - जंतुओं का भी उल्लेख किया। अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बोर्ड की परीक्षा में भाग ले रहे परीक्षा योद्धाओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे बिना तनाव लिए सकारात्मक भावना के साथ अपनी परीक्षाएं दें।

केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत 19 मार्च को होगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने चौहान कल चंडीगढ़ में किसानों के साथ वार्ता के बाद कहा कि किसान संगठनों, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के साथ सभी मुद्दों पर बातचीत हुई।
